



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण, 27, 1934

No. 643]

NFV DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

सं. 61/2012-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 904(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 15 जनवरी, 2008 सं. सा.का.नि. 33(अ), तारीख 15 जनवरी, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“तालिका

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	14019010	सभी माल	0.00%
2	15180031	सभी माल	26.67%
3	15180039	सभी माल	10.00%
4	15180040	सभी माल	26.67%
5	18061000	सभी माल	10.00%
6	18062000	सभी माल	10.00%
7	18063100	सभी माल	0.00%
8	19011010	सभी माल	0.00%
9	19011090	सभी माल	0.00%
10	19012000	सभी माल	0.00%
11	19021900	सभी माल	0.00%
12	19041010	सभी माल	0.00%
13	19041020	सभी माल	0.00%
14	19041030	सभी माल	0.00%
15	19041090	सभी माल	0.00%
16	19059010	सभी माल	10.00%
17	19059020	सभी माल	10.00%

18	19059030	सभी माल	10.00%
19	19059040	सभी माल	10.00%
20	19059090	सभी माल	10.00%
21	22011010	सभी माल	0.00%
22	22011020	सभी माल	0.00%
23	22029010	सभी माल	10.00%
24	22029020	सभी माल	10.00%
25	22029030	सभी माल	10.00%
26	22029090	सभी माल	10.00%
27	26190010	सभी माल	0.00%
28	26190090	सभी माल	0.00%
29	27075000	सभी माल	0.00%
30	27079900	सभी माल	0.00%
31	27111300	सभी माल	0.00%
32	27111900	सभी माल	0.00%
33	28369910	सभी माल	0.00%
34	28369920	सभी माल	0.00%
35	28369930	सभी माल	0.00%
36	28369990	सभी माल	0.00%
37	29012300	सभी माल	0.00%
38	29031500	सभी माल	0.00%
39	29032100	सभी माल	0.00%
40	29051220	सभी माल	5.83%
41	29051300	सभी माल	0.00%
42	29051620	सभी माल	0.00%
43	29051900	सभी माल	10.00%
44	29053200	सभी माल	5.83%
45	29071110	सभी माल	5.83%
46	29071190	सभी माल	5.83%
47	29071300	सभी माल	0.00%
48	29152100	सभी माल	5.83%
49	29152400	सभी माल	0.00%
50	29153100	सभी माल	0.00%
51	29157010	सभी माल	5.83%
52	29157020	सभी माल	5.83%
53	29157030	सभी माल	5.83%
54	29157040	सभी माल	5.83%
55	29157050	सभी माल	5.83%
56	29157090	सभी माल	5.83%
57	29161510	सभी माल	0.00%
58	29161590	सभी माल	0.00%

59	29173200	सभी माल	5.83%
60	29304000	सभी माल	0.00%
61	29332990	सभी माल	0.00%
62	29411030	सभी माल	0.00%
63	32021000	सभी माल	5.83%
64	32061110	सभी माल	0.00%
65	32081010	सभी माल	0.00%
66	32081020	सभी माल	0.00%
67	32081030	सभी माल	0.00%
68	32081090	सभी माल	0.00%
69	32082010	सभी माल	0.00%
70	32082020	सभी माल	0.00%
71	32082030	सभी माल	0.00%
72	32082090	सभी माल	0.00%
73	32089011	सभी माल	0.00%
74	32089019	सभी माल	0.00%
75	32089021	सभी माल	0.00%
76	32089022	सभी माल	0.00%
77	32089029	सभी माल	0.00%
78	32089030	सभी माल	0.00%
79	32089041	सभी माल	0.00%
80	32089049	सभी माल	0.00%
81	32089050	सभी माल	0.00%
82	32089090	सभी माल	0.00%
83	32091010	सभी माल	0.00%
84	32091090	सभी माल	0.00%
85	32099010	सभी माल	3.33%
86	32099020	सभी माल	3.33%
87	32099090	सभी माल	3.33%
88	32151110	सभी माल	0.00%
89	32151120	सभी माल	0.00%
90	32151130	सभी माल	0.00%
91	32151140	सभी माल	0.00%
92	32151190	सभी माल	0.00%
93	32151910	सभी माल	0.00%
94	32151920	सभी माल	0.00%
95	32151930	सभी माल	0.00%
96	32151940	सभी माल	0.00%
97	32151990	सभी माल	0.00%
98	32159010	सभी माल	0.00%
99	32159020	सभी माल	0.00%

100	32159030	सभी माल	3.00%
101	32159040	सभी माल	0.00%
102	32159090	सभी माल	0.00%
103	33029011	सभी माल	6.67%
104	33029012	सभी माल	6.67%
105	33029019	सभी माल	6.67%
106	33029020	सभी माल	6.67%
107	33029090	सभी माल	6.67%
108	33051010	सभी माल	0.00%
109	33072000	सभी माल	0.00%
110	33079010	सभी माल	0.00%
111	33079020	सभी माल	0.00%
112	33079090	सभी माल	0.00%
113	34021200	सभी माल	6.67%
114	34021300	सभी माल	6.67%
115	34021900	सभी माल	0.00%
116	34022010	सभी माल	0.00%
117	34022020	सभी माल	0.00%
118	34022090	सभी माल	0.00%
119	34039900	सभी माल	5.83%
120	34049010	सभी माल	0.00%
121	34049020	सभी माल	0.00%
122	34049031	सभी माल	0.00%
123	34049032	सभी माल	0.00%
124	34049033	सभी माल	0.00%
125	34049039	सभी माल	0.00%
126	34049090	सभी माल	0.00%
127	35051010	सभी माल	10.00%
128	35051090	सभी माल	10.00%
129	35061000	सभी माल	6.67%
130	37079090	सभी माल	6.67%
131	38081000	आलडिक्लोरोडेक्लोरोबेनजोइलेट, डीडीटी(आईएसओ), हेपटेक्लोर(आईएसओ), पैराथियन मैथेन, लाइडेन	10.00%
132	38089111	सभी माल	10.00%
133	38089112	सभी माल	10.00%
134	38089113	सभी माल	10.00%
135	38089121	सभी माल	10.00%
136	38089122	सभी माल	10.00%
137	38089123	सभी माल	10.00%
138	38089124	सभी माल	10.00%

139	38089131	सभी माल	10.00%
140	38089132	सभी माल	10.00%
141	38089133	सभी माल	10.00%
142	38089134	सभी माल	10.00%
143	38089135	सभी माल	10.00%
144	38089136	सभी माल	10.00%
145	38089137	सभी माल	10.00%
146	38089191	सभी माल	10.00%
147	38089192	सभी माल	10.00%
148	38089199	सभी माल	10.00%
149	38089210	सभी माल	0.00%
150	38089220	सभी माल	0.00%
151	38089230	सभी माल	0.00%
152	38089240	सभी माल	0.00%
153	38089250	सभी माल	0.00%
154	38089290	सभी माल	0.00%
155	38091000	सभी माल	0.00%
156	38170011	सभी माल	5.83%
157	38170019	सभी माल	5.83%
158	38231200	सभी माल	0.00%
159	39011010	सभी माल	1.70%
160	39011090	सभी माल	1.70%
161	39012000	सभी माल	1.70%
162	39013000	सभी माल	1.67%
163	39019010	सभी माल	1.70%
164	39019090	सभी माल	1.70%
165	39021000	सभी माल	1.70%
166	39023000	सभी माल	1.70%
167	39029000	सभी माल	1.67%
168	39031910	सभी माल	1.70%
169	39031990	सभी माल	1.70%
170	39053000	सभी माल	0.00%
171	39061010	सभी माल	5.83%
172	39061090	सभी माल	5.83%
173	39072010	सभी माल	0.00%
174	39072090	सभी माल	0.00%
175	39073010	सभी माल	2.50%
176	39073090	सभी माल	2.50%
177	39079910	सभी माल	2.50%
178	39079920	सभी माल	2.50%
179	39079990	सभी माल	2.50%

180	39081010	सभी माल	3.33%
181	39081090	सभी माल	3.33%
182	39089010	सभी माल	3.33%
183	39089020	सभी माल	3.33%
184	39089090	सभी माल	3.33%
185	39119010	सभी माल	0.00%
186	39119090	सभी माल	0.00%
187	39121110	सभी माल	0.00%
188	39121120	सभी माल	0.00%
189	39121130	सभी माल	0.00%
190	39121140	सभी माल	0.00%
191	39121190	सभी माल	0.00%
192	39173910	सभी माल	3.33%
193	39173920	सभी माल	3.33%
194	39173990	सभी माल	3.33%
195	39191000	सभी माल	6.67%
196	39199010	सभी माल	6.67%
197	39199020	सभी माल	6.67%
198	39199090	सभी माल	6.67%
199	39201011	सभी माल	6.67%
200	39201012	सभी माल	6.67%
201	39201019	सभी माल	6.67%
202	39201091	सभी माल	6.67%
203	39201092	सभी माल	6.67%
204	39201099	सभी माल	6.67%
205	39202010	सभी माल	6.67%
206	39202020	सभी माल	6.67%
207	39202090	सभी माल	6.67%
208	39206110	सभी माल	6.67%
209	39206120	सभी माल	6.67%
210	39206190	सभी माल	6.67%
211	39211400	सभी माल	3.33%
212	39211900	सभी माल	3.33%
213	39232100	सभी माल	6.67%
214	39232910	सभी माल	6.67%
215	39232990	सभी माल	6.67%
216	39235010	सभी माल	6.67%
217	39235090	सभी माल	6.67%
218	39239010	सभी माल	6.67%
219	39239020	सभी माल	6.67%
220	39239090	सभी माल	6.67%

221	39269010	सभी माल	
222	39269021	सभी माल	6.67%
223	39269029	सभी माल	6.67%
224	39269031	सभी माल	6.67%
225	39269039	सभी माल	6.67%
226	39269041	सभी माल	6.67%
227	39269049	सभी माल	6.67%
228	39269051	सभी माल	6.67%
229	39269059	सभी माल	6.67%
230	39269061	सभी माल	6.67%
231	39269069	सभी माल	6.67%
232	39269071	सभी माल	6.67%
233	39269079	सभी माल	6.67%
234	39269080	सभी माल	6.67%
235	39269091	सभी माल	6.67%
236	39269099	सभी माल	6.67%
237	40169990	सभी माल	6.67%
238	49070010	सभी माल	0.00%
239	49070020	सभी माल	0.00%
240	49070090	सभी माल	0.00%
241	50060090	सभी माल	0.00%
242	52082990	सभी माल	6.67%
243	52083390	सभी माल	6.67%
244	52083990	असाबाब (अपहोल्स्ट्री) कपड़ों के अलावा सभी माल	6.67%
245	52083990	असाबाब(अपहोल्स्ट्री) कपड़े	6.67% : या रुपये, 150 प्रति किलो जो भी उच्चतम हो
246	52085990	सभी माल	6.67%
247	52092990	सभी माल	6.67%
248	54023100	सभी माल	3.33%
249	54023200	सभी माल	3.33%
250	54023300	सभी माल	2.50%
251	54024900	सभी माल	3.33%
252	54025100	सभी माल	3.33%
253	54041100	सभी माल	3.33%
254	55020010	सभी माल	0.00%
255	55020020	सभी माल	0.00%
256	55020090	सभी माल	0.00%
257	59039010	सभी माल	6.67%
258	59039020	सभी माल	6.67%
259	59039090	सभी माल	6.67%

260	59061000	सभी माल	0.00%
261	60011010	सभी माल	3.33%
262	60011020	सभी माल	3.33%
263	60011090	सभी माल	3.33%
264	60012100	सभी माल	3.33%
265	60012200	सभी माल	3.33%
266	60012900	सभी माल	0.00%
267	60019100	सभी माल	0.00%
268	60019200	सभी माल	3.33%
269	60019910	सभी माल	0.00%
270	60019990	सभी माल	0.00%
271	60024000	सभी माल	0.00%
272	60029000	सभी माल	0.00%
273	60031000	सभी माल	0.00%
274	60032000	सभी माल	3.33%
275	60033000	सभी माल	3.33%
276	60034000	सभी माल	0.00%
277	60039000	सभी माल	0.00%
278	60041000	सभी माल	0.00%
279	60049000	सभी माल	0.00%
280	60051000	सभी माल	3.33%
281	60052100	सभी माल	3.33%
282	60052200	सभी माल	3.33%
283	60052300	सभी माल	0.00%
284	60052400	सभी माल	3.33%
285	60053100	सभी माल	0.00%
286	60053200	सभी माल	0.00%
287	60053300	सभी माल	0.00%
288	60053400	सभी माल	3.33%
289	60054100	सभी माल	0.00%
290	60054200	सभी माल	0.00%
291	60054300	सभी माल	0.00%
292	60054400	सभी माल	3.33%
293	60059000	सभी माल	0.00%
294	63079011	सभी माल	0.00%
295	63079012	सभी माल	0.00%
296	63079013	सभी माल	0.00%
297	63079019	सभी माल	0.00%
298	63079020	सभी माल	0.00%
299	63079090	सभी माल	0.00%
300	68091900	सभी माल	0.00%

301	69139000	सभी माल	0.00%
302	70071900	सभी माल	6.67%
303	70072900	सभी माल	6.67%
304	70080010	सभी माल	3.33%
305	70080020	सभी माल	3.33%
306	70080090	सभी माल	3.33%
307	70112000	सभी माल	0.00%
308	71101110	सभी माल	0.00%
309	71101120	सभी माल	0.00%
310	72022100	सभी माल	0.00%
311	72041000	सभी माल	0.00%
312	72042110	सभी माल	0.00%
313	72042190	सभी माल	0.00%
314	72042910	सभी माल	0.00%
315	72042920	सभी माल	0.00%
316	72042990	सभी माल	0.00%
317	72043000	सभी माल	0.00%
318	72044100	सभी माल	0.00%
319	72044900	सभी माल	0.00%
320	72045000	सभी माल	0.00%
321	72089000	सभी माल	0.00%
322	72099000	सभी माल	0.00%
323	72101210	सभी माल	0.00%
324	72101290	सभी माल	0.00%
325	72104900	सभी माल	0.00%
326	72107000	सभी माल	0.00%
327	72122010	सभी माल	0.00%
328	72122090	सभी माल	0.00%
329	72139910	सभी माल	0.00%
330	72139920	सभी माल	0.00%
331	72139990	सभी माल	0.00%
332	72189910	सभी माल	0.00%
333	72189990	सभी माल	0.00%
334	72251100	सभी माल	0.00%
335	72261100	सभी माल	0.00%
336	73041120	सभी माल	0.00%
337	73041190	सभी माल	0.00%
338	73042310	सभी माल	0.00%
339	73042390	सभी माल	0.00%
340	73042910	सभी माल	0.00%
341	73042990	सभी माल	0.00%

342	73049000	सभी माल	0.00%
343	73051211	सभी माल	0.00%
344	73051219	सभी माल	0.00%
345	73051221	सभी माल	0.00%
346	73051229	सभी माल	0.00%
347	73072100	सभी माल	0.00%
348	73083000	सभी माल	0.00%
349	73269091	सभी माल	6.67%
350	74032100	सभी माल	0.00%
351	74099000	सभी माल	0.00%
352	74102100	सभी माल	0.00%
353	74112100	सभी माल	0.00%
354	74199100	सभी माल	0.00%
355	76020010	सभी माल	0.00%
356	76020090	सभी माल	0.00%
357	76061200	सभी माल	0.00%
358	76072010	सभी माल	0.00%
359	76072090	सभी माल	0.00%
360	76169910	सभी माल	0.00%
361	76169920	सभी माल	0.00%
362	76169930	सभी माल	0.00%
363	76169990	सभी माल	0.00%
364	78050010	सभी माल	0.00%
365	78050020	सभी माल	0.00%
366	79020090	सभी माल	0.00%
367	81129200	सभी माल	0.00%
368	81129900	सभी माल	0.00%
369	82033000	सभी माल	0.00%
370	82059000	सभी माल	0.00%
371	82071300	सभी माल	3.33%
372	82073000	सभी माल	0.00%
373	82079010	सभी माल	0.00%
374	82079020	सभी माल	0.00%
375	82079030	सभी माल	0.00%
376	82079090	सभी माल	0.00%
377	82090010	सभी माल	3.33%
378	82090090	सभी माल	3.33%
379	83024110	सभी माल	0.00%
380	83024120	सभी माल	0.00%
381	83024190	सभी माल	0.00%
382	83024200	सभी माल	0.00%

383	83026000	सभी माल	0.00%
384	83059010	सभी माल	0.00%
385	83059020	सभी माल	0.00%
386	83059090	सभी माल	0.00%
387	83099010	सभी माल	0.00%
388	83099020	सभी माल	0.00%
389	83099030	सभी माल	0.00%
390	83099090	सभी माल	0.00%
391	83119000	सभी माल	0.00%
392	84091000	सभी माल	0.00%
393	84099111	सभी माल	0.00%
394	84099112	सभी माल	0.00%
395	84099113	सभी माल	0.00%
396	84099114	सभी माल	0.00%
397	84099120	सभी माल	0.00%
398	84099191	सभी माल	0.00%
399	84099192	सभी माल	0.00%
400	84099193	सभी माल	0.00%
401	84099194	सभी माल	0.00%
402	84099199	सभी माल	0.00%
403	84137010	सभी माल	5.83%
404	84137091	सभी माल	5.83%
405	84137092	सभी माल	5.83%
406	84137093	सभी माल	5.83%
407	84137094	सभी माल	5.83%
408	84137095	सभी माल	5.83%
409	84137096	सभी माल	5.83%
410	84137097	सभी माल	5.83%
411	84137099	सभी माल	5.83%
412	84138110	सभी माल	2.50%
413	84138120	सभी माल	2.50%
414	84138130	सभी माल	2.50%
415	84138190	सभी माल	2.50%
416	84139110	सभी माल	0.00%
417	84139120	सभी माल	0.00%
418	84139130	सभी माल	0.00%
419	84139140	सभी माल	0.00%
420	84139190	सभी माल	0.00%
421	84141000	सभी माल	0.00%
422	84143000	सभी माल	5.83%
423	84159000	सभी माल	0.00%

424	84185000	सभी माल	5.83%
425	84186100	सभी माल	5.83%
426	84189900	सभी माल	0.00%
427	84224000	सभी माल	0.00%
428	84269100	सभी माल	0.00%
429	84314100	सभी माल	0.00%
430	84314200	सभी माल	0.00%
431	84314910	सभी माल	0.00%
432	84324000	सभी माल	0.00%
433	84501100	सभी माल	6.67%
434	84569910	सभी माल	0.00%
435	84569990	सभी माल	0.00%
436	84571010	सभी माल	0.00%
437	84571020	सभी माल	0.00%
438	84743200	सभी माल	0.00%
439	84821011	सभी माल	0.00%
440	84821012	सभी माल	0.00%
441	84821013	सभी माल	0.00%
442	84821020	सभी माल	0.00%
443	84821030	सभी माल	0.00%
444	84821040	सभी माल	0.00%
445	84821051	सभी माल	0.00%
446	84821052	सभी माल	0.00%
447	84821053	सभी माल	0.00%
448	84821090	सभी माल	0.00%
449	84825011	सभी माल	0.00%
450	84825012	सभी माल	0.00%
451	84825013	सभी माल	0.00%
452	84825021	सभी माल	0.00%
453	84825022	सभी माल	0.00%
454	84825023	सभी माल	0.00%
455	84828000	सभी माल	0.00%
456	84839000	सभी माल	5.83%
457	85061000	सभी माल	0.00%
458	85063000	सभी माल	0.00%
459	85064000	सभी माल	0.00%
460	85065000	सभी माल	0.00%
461	85066000	सभी माल	3.33%
462	85068010	सभी माल	3.33%
463	85068090	सभी माल	3.33%
464	85069000	सभी माल	3.33%

465	85161000	सभी माल	6.67%
466	85169000	सभी माल	3.33%
467	85182100	सभी माल	3.33%
468	85182200	सभी माल	3.33%
469	85183000	सभी माल	3.33%
470	85184000	सभी माल	3.33%
471	85185000	सभी माल	6.67%
472	85189000	सभी माल	3.33%
473	85198910	सभी माल	3.33%
474	85198920	सभी माल	3.33%
475	85198930	सभी माल	3.33%
476	85198940	सभी माल	3.33%
477	85198990	सभी माल	3.33%
478	85199200	सभी माल	0.00%
479	85219010	सभी माल	3.33%
480	85219020	सभी माल	3.33%
481	85219090	सभी माल	3.33%
482	85271300	सभी माल	0.00%
483	85279100	सभी माल	0.00%
484	85311010	सभी माल	6.67%
485	85311020	सभी माल	6.67%
486	85311090	सभी माल	6.67%
487	85441110	सभी माल	5.83%
488	85441190	सभी माल	5.83%
489	85441910	सभी माल	5.83%
490	85441920	सभी माल	5.83%
491	85441930	सभी माल	5.83%
492	85441990	सभी माल	5.83%
493	85489000	सभी माल	0.00%
494	87081010	सभी माल	0.00%
495	87081090	सभी माल	0.00%
496	87084000	सभी माल	0.00%
497	87086000	सभी माल	0.00%
498	87087000	सभी माल	6.67%
499	87089100	रेडियेटर्स	3.33%
500	87089900	सभी माल	6.67%
501	90084000	सभी माल	0.00%
502	90151000	सभी माल	0.00%
503	90154000	सभी माल	0.00%
504	90189094	सभी माल	0.00%
505	90282000	सभी माल	0.00%

506	94032010	सभी माल	0.00%
507	94032090	सभी माल	0.00%
508	94033010	सभी माल	6.67%
509	94033090	सभी माल	6.67%
510	94036000	सभी माल	3.33%
511	94038100	सभी माल	0.00%
512	94038900	सभी माल	0.00%
513	94039000	सभी माल	0.00%
514	94054010	सभी माल	0.00%
515	94054090	सभी माल	0.00%
516	95041000	सभी माल	0.00%
517	95042000	सभी माल	0.00%
518	95069110	सभी माल	0.00%
519	95069190	सभी माल	0.00%
520	96061010	सभी माल	0.00%
521	96061020	सभी माल	0.00%
522	96062910	सभी माल	0.00%
523	96062990	सभी माल	0.00%
524	96071110	सभी माल	0.00%
525	96071190	सभी माल	0.00%
526	96071910	सभी माल	0.00%
527	96071990	सभी माल	0.00%
528	96072000	सभी माल	0.00%
529	96121010	सभी माल	3.33%
530	96121020	सभी माल	3.33%
531	96121030	सभी माल	3.33%
532	96121090	सभी माल	3.33%
533	96190010	सभी माल	6.67%

[फा. सं. 354/9/2004-टीआरयू (भाग II)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 15 जनवरी, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सं. सा.का.नि. 33(अ), तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 36/2012-सीमा-शुल्क, 14 मई, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सं. सा.का.नि. 365(अ), तारीख 14 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2012
No. 61/2012-Customs

G.S.R. 904(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2008-Customs, dated the 15th January, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 33(E), dated the 15th January, 2008, namely:-

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: -

TABLE

S. No.	Tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	14019010	All goods	0.00%
2	15180031	All goods	26.67%
3	15180039	All goods	10.00%
4	15180040	All goods	26.67%
5	18061000	All goods	10.00%
6	18062000	All goods	10.00%

7	18063100	All goods	0.00%
8	19011010	All goods	0.00%
9	19011090	All goods	0.00%
10	19012000	All goods	0.00%
11	19021900	All goods	0.00%
12	19041010	All goods	0.00%
13	19041020	All goods	0.00%
14	19041030	All goods	0.00%
15	19041090	All goods	0.00%
16	19059010	All goods	10.00%
17	19059020	All goods	10.00%
18	19059030	All goods	10.00%
19	19059040	All goods	10.00%
20	19059090	All goods	10.00%
21	22011010	All goods	0.00%
22	22011020	All goods	0.00%
23	22029010	All goods	10.00%
24	22029020	All goods	10.00%
25	22029030	All goods	10.00%
26	22029090	All goods	10.00%
27	26190010	All goods	0.00%
28	26190090	All goods	0.00%
29	27075000	All goods	0.00%
30	27079900	All goods	0.00%
31	27111300	All goods	0.00%
32	27111900	All goods	0.00%
33	28369910	All goods	0.00%

34	28369920	All goods	0.00%
35	28369930	All goods	0.00%
36	28369990	All goods	0.00%
37	29012300	All goods	0.00%
38	29031500	All goods	0.00%
39	29032100	All goods	0.00%
40	29051220	All goods	5.83%
41	29051300	All goods	0.00%
42	29051620	All goods	0.00%
43	29051900	All goods	10.00%
44	29053200	All goods	5.83%
45	29071110	All goods	5.83%
46	29071190	All goods	5.83%
47	29071300	All goods	0.00%
48	29152100	All goods	5.83%
49	29152400	All goods	0.00%
50	29153100	All goods	0.00%
51	29157010	All goods	5.83%
52	29157020	All goods	5.83%
53	29157030	All goods	5.83%
54	29157040	All goods	5.83%
55	29157050	All goods	5.83%
56	29157090	All goods	5.83%
57	29161510	All goods	0.00%
58	29161590	All goods	0.00%
59	29173200	All goods	5.83%
60	29304000	All goods	0.00%

61	29332990	All goods	0.00%
62	29411030	All goods	0.00%
63	32021000	All goods	5.83%
64	32061110	All goods	0.00%
65	32081010	All goods	0.00%
66	32081020	All goods	0.00%
67	32081030	All goods	0.00%
68	32081090	All goods	0.00%
69	32082010	All goods	0.00%
70	32082020	All goods	0.00%
71	32082030	All goods	0.00%
72	32082090	All goods	0.00%
73	32089011	All goods	0.00%
74	32089019	All goods	0.00%
75	32089021	All goods	0.00%
76	32089022	All goods	0.00%
77	32089029	All goods	0.00%
78	32089030	All goods	0.00%
79	32089041	All goods	0.00%
80	32089049	All goods	0.00%
81	32089050	All goods	0.00%
82	32089090	All goods	0.00%
83	32091010	All goods	0.00%
84	32091090	All goods	0.00%
85	32099010	All goods	3.33%
86	32099020	All goods	3.33%
87	32099090	All goods	3.33%

88	32151110	All goods	0.00%
89	32151120	All goods	0.00%
90	32151130	All goods	0.00%
91	32151140	All goods	0.00%
92	32151190	All goods	0.00%
93	32151910	All goods	0.00%
94	32151920	All goods	0.00%
95	32151930	All goods	0.00%
96	32151940	All goods	0.00%
97	32151990	All goods	0.00%
98	32159010	All goods	0.00%
99	32159020	All goods	0.00%
100	32159030	All goods	0.00%
101	32159040	All goods	0.00%
102	32159090	All goods	0.00%
103	33029011	All goods	6.67%
104	33029012	All goods	6.67%
105	33029019	All goods	6.67%
106	33029020	All goods	6.67%
107	33029090	All goods	6.67%
108	33051010	All goods	0.00%
109	33072000	All goods	0.00%
110	33079010	All goods	0.00%
111	33079020	All goods	0.00%
112	33079090	All goods	0.00%
113	34021200	All goods	6.67%
114	34021300	All goods	6.67%

115	34021900	All goods	0.00%
116	34022010	All goods	0.00%
117	34022020	All goods	0.00%
118	34022090	All goods	0.00%
119	34039900	All goods	5.83%
120	34049010	All goods	0.00%
121	34049020	All goods	0.00%
122	34049031	All goods	0.00%
123	34049032	All goods	0.00%
124	34049033	All goods	0.00%
125	34049039	All goods	0.00%
126	34049090	All goods	0.00%
127	35051010	All goods	10.00%
128	35051090	All goods	10.00%
129	35061000	All goods	6.67%
130	37079090	All goods	6.67%
131	38085000	Aldrin, Chlordane, Chlorobenzilate, DDT(ISO), Heptachlor (ISO), Parathion Methyl, Lindane	10.00%
132	38089111	All goods	10.00%
133	38089112	All goods	10.00%
134	38089113	All goods	10.00%
135	38089121	All goods	10.00%
136	38089122	All goods	10.00%
137	38089123	All goods	10.00%
138	38089124	All goods	10.00%
139	38089131	All goods	10.00%
140	38089132	All goods	10.00%

141	38089133	All goods	10.00%
142	38089134	All goods	10.00%
143	38089135	All goods	10.00%
144	38089136	All goods	10.00%
145	38089137	All goods	10.00%
146	38089191	All goods	10.00%
147	38089192	All goods	10.00%
148	38089199	All goods	10.00%
149	38089210	All goods	0.00%
150	38089220	All goods	0.00%
151	38089230	All goods	0.00%
152	38089240	All goods	0.00%
153	38089250	All goods	0.00%
154	38089290	All goods	0.00%
155	38091000	All goods	0.00%
156	38170011	All goods	5.83%
157	38170019	All goods	5.83%
158	38231200	All goods	0.00%
159	39011010	All goods	1.70%
160	39011090	All goods	1.70%
161	39012000	All goods	1.70%
162	39013000	All goods	1.67%
163	39019010	All goods	1.70%
164	39019090	All goods	1.70%
165	39021000	All goods	1.70%
166	39023000	All goods	1.70%
167	39029000	All goods	1.67%

168	39031910	All goods	1.70%
169	39031990	All goods	1.70%
170	39053000	All goods	0.00%
171	39061010	All goods	5.83%
172	39061090	All goods	5.83%
173	39072010	All goods	0.00%
174	39072090	All goods	0.00%
175	39073010	All goods	2.50%
176	39073090	All goods	2.50%
177	39079910	All goods	2.50%
178	39079920	All goods	2.50%
179	39079990	All goods	2.50%
180	39081010	All goods	3.33%
181	39081090	All goods	3.33%
182	39089010	All goods	3.33%
183	39089020	All goods	3.33%
184	39089090	All goods	3.33%
185	39119010	All goods	0.00%
186	39119090	All goods	0.00%
187	39121110	All goods	0.00%
188	39121120	All goods	0.00%
189	39121130	All goods	0.00%
190	39121140	All goods	0.00%
191	39121190	All goods	0.00%
192	39173910	All goods	3.33%
193	39173920	All goods	3.33%
194	39173990	All goods	3.33%

195	39191000	All goods	6.67%
196	39199010	All goods	6.67%
197	39199020	All goods	6.67%
198	39199090	All goods	6.67%
199	39201011	All goods	6.67%
200	39201012	All goods	6.67%
201	39201019	All goods	6.67%
202	39201091	All goods	6.67%
203	39201092	All goods	6.67%
204	39201099	All goods	6.67%
205	39202010	All goods	6.67%
206	39202020	All goods	6.67%
207	39202090	All goods	6.67%
208	39206110	All goods	6.67%
209	39206120	All goods	6.67%
210	39206190	All goods	6.67%
211	39211400	All goods	3.33%
212	39211900	All goods	3.33%
213	39232100	All goods	6.67%
214	39232910	All goods	6.67%
215	39232990	All goods	6.67%
216	39235010	All goods	6.67%
217	39235090	All goods	6.67%
218	39239010	All goods	6.67%
219	39239020	All goods	6.67%
220	39239090	All goods	6.67%
221	39269010	All goods	6.67%

222	39269021	All goods	6.67%
223	39269029	All goods	6.67%
224	39269031	All goods	6.67%
225	39269039	All goods	6.67%
226	39269041	All goods	6.67%
227	39269049	All goods	6.67%
228	39269051	All goods	6.67%
229	39269059	All goods	6.67%
230	39269061	All goods	6.67%
231	39269069	All goods	6.67%
232	39269071	All goods	6.67%
233	39269079	All goods	6.67%
234	39269080	All goods	6.67%
235	39269091	All goods	6.67%
236	39269099	All goods	6.67%
237	40169990	All goods	6.67%
238	49070010	All goods	0.00%
239	49070020	All goods	0.00%
240	49070090	All goods	0.00%
241	50060090	All goods	0.00%
242	52082990	All goods	6.67%
243	52083390	All goods	6.67%
244	52083990	All goods, other than upholstery fabrics	6.67%
245	52083990	Upholstery fabrics	6.67% or Rs. 150 per kg whichever is higher
246	52085990	All Goods	6.67%
247	52092990	All goods	6.67%

248	54023100	All goods	3.33%
249	54023200	All goods	3.33%
250	54023300	All goods	2.50%
251	54024900	All goods	3.33%
252	54025100	All goods	3.33%
253	54041100	All goods	3.33%
254	55020010	All goods	0.00%
255	55020020	All goods	0.00%
256	55020090	All goods	0.00%
257	59039010	All goods	6.67%
258	59039020	All goods	6.67%
259	59039090	All goods	6.67%
260	59061000	All goods	0.00%
261	60011010	All goods	3.33%
262	60011020	All goods	3.33%
263	60011090	All goods	3.33%
264	60012100	All goods	3.33%
265	60012200	All goods	3.33%
266	60012900	All goods	0.00%
267	60019100	All goods	0.00%
268	60019200	All goods	3.33%
269	60019910	All goods	0.00%
270	60019990	All goods	0.00%
271	60023000	All goods	0.00%
272	60023000	All goods	0.00%
273	60031000	All goods	0.00%
274	60032000	All goods	3.33%

275	60033000	All goods	3.33%
276	60034000	All goods	0.00%
277	60039000	All goods	0.00%
278	60041000	All goods	0.00%
279	60049000	All goods	0.00%
280	60051000	All goods	3.33%
281	60052100	All goods	3.33%
282	60052200	All goods	0.00%
283	60052300	All goods	3.33%
284	60052400	All goods	0.00%
285	60053100	All goods	0.00%
286	60053200	All goods	0.00%
287	60053300	All goods	3.33%
288	60053400	All goods	0.00%
289	60054100	All goods	0.00%
290	60054200	All goods	0.00%
291	60054300	All goods	3.33%
292	60054400	All goods	0.00%
293	60059000	All goods	0.00%
294	63079011	All goods	0.00%
295	63079012	All goods	0.00%
296	63079013	All goods	0.00%
297	63079019	All goods	0.00%
298	63079020	All goods	0.00%
299	63079090	All goods	0.00%
300	68091900	All goods	0.00%
301	69139000	All goods	0.00%

302	70071900	All goods	6.67%
303	70072900	All goods	6.67%
304	70080010	All goods	3.33%
305	70080020	All goods	3.33%
306	70080090	All goods	3.33%
307	70112000	All goods	0.00%
308	71101110	All goods	0.00%
309	71101120	All goods	0.00%
310	72022100	All goods	0.00%
311	72041000	All goods	0.00%
312	72042110	All goods	0.00%
313	72042190	All goods	0.00%
314	72042910	All goods	0.00%
315	72042920	All goods	0.00%
316	72042990	All goods	0.00%
317	72043000	All goods	0.00%
318	72044100	All goods	0.00%
319	72044900	All goods	0.00%
320	72045000	All goods	0.00%
321	72089000	All goods	0.00%
322	72099000	All goods	0.00%
323	72101210	All goods	0.00%
324	72101290	All goods	0.00%
325	72104900	All goods	0.00%
326	72107000	All goods	0.00%
327	72122010	All goods	0.00%
328	72122090	All goods	0.00%

329	72139910	All goods	0.00%
330	72139920	All goods	0.00%
331	72139990	All goods	0.00%
332	72189910	All goods	0.00%
333	72189990	All goods	0.00%
334	72251100	All goods	0.00%
335	72261100	All goods	0.00%
336	73041120	All goods	0.00%
337	73041190	All goods	0.00%
338	73042310	All goods	0.00%
339	73042390	All goods	0.00%
340	73042910	All goods	0.00%
341	73042990	All goods	0.00%
342	73049000	All goods	0.00%
343	73051211	All goods	0.00%
344	73051219	All goods	0.00%
345	73051221	All goods	0.00%
346	73051229	All goods	0.00%
347	73072100	All goods	0.00%
348	73083000	All goods	0.00%
349	73269091	All goods	6.67%
350	74032100	All goods	0.00%
351	74099000	All goods	0.00%
352	74102100	All goods	0.00%
353	74112100	All goods	0.00%
354	74199100	All goods	0.00%
355	76020010	All goods	0.00%

356	76020090	All goods	0.00%
357	76061200	All goods	0.00%
358	76072010	All goods	0.00%
359	76072090	All goods	0.00%
360	76169910	All goods	0.00%
361	76169920	All goods	0.00%
362	76169930	All goods	0.00%
363	76169990	All goods	0.00%
364	78050010	All goods	0.00%
365	78050020	All goods	0.00%
366	79020090	All goods	0.00%
367	81129200	All goods	0.00%
368	81129900	All goods	0.00%
369	82033000	All goods	0.00%
370	82059000	All goods	0.00%
371	82071300	All goods	3.33%
372	82073000	All goods	0.00%
373	82079010	All goods	0.00%
374	82079020	All goods	0.00%
375	82079030	All goods	0.00%
376	82079090	All goods	0.00%
377	82090010	All goods	3.33%
378	82090090	All goods	3.33%
379	83024110	All goods	0.00%
380	83024120	All goods	0.00%
381	83024190	All goods	0.00%
382	83024200	All goods	0.00%

383	83026000	All goods	0.00%
384	83059010	All goods	0.00%
385	83059020	All goods	0.00%
	83059090	All goods	0.00%
387	83099010	All goods	0.00%
388	83099020	All goods	0.00%
389	83099030	All goods	0.00%
390	83099090	All goods	0.00%
391	83119000	All goods	0.00%
392	84091000	All goods	0.00%
393	84099111	All goods	0.00%
394	84099112	All goods	0.00%
395	84099113	All goods	0.00%
396	84099114	All goods	0.00%
397	84099120	All goods	0.00%
398	84099191	All goods	0.00%
399	84099192	All goods	0.00%
400	84099193	All goods	0.00%
401	84099194	All goods	0.00%
402	84099199	All goods	0.00%
403	84137010	All goods	5.83%
404	84137091	All goods	5.83%
405	84137092	All goods	5.83%
406	84137093	All goods	5.83%
407	84137094	All goods	5.83%
408	84137095	All goods	5.83%
409	84137096	All goods	5.83%

410	84137097	All goods	5.83%
411	84137099	All goods	5.83%
412	84138110	All goods	2.50%
413	84138120	All goods	2.50%
414	84138130	All goods	2.50%
415	84138190	All goods	2.50%
416	84139110	All goods	0.00%
417	84139120	All goods	0.00%
418	84139130	All goods	0.00%
419	84139140	All goods	0.00%
420	84139190	All goods	0.00%
421	84141000	All goods	0.00%
422	84143000	All goods	5.83%
423	84159000	All goods	0.00%
424	84185000	All goods	5.83%
425	84186100	All goods	5.83%
426	84189900	All goods	0.00%
427	84224000	All goods	0.00%
428	84269100	All goods	0.00%
429	84314100	All goods	0.00%
430	84314200	All goods	0.00%
431	84314900	All goods	0.00%
432	84324000	All goods	0.00%
433	84569100	All goods	6.67%
434	84569900	All goods	0.00%
435	84569990	All goods	0.00%
436	84571010	All goods	0.00%

437	84571020	All goods	0.00%
438	84743200	All goods	0.00%
439	84821011	All goods	0.00%
440	84821012	All goods	0.00%
441	84821013	All goods	0.00%
442	84821020	All goods	0.00%
443	84821030	All goods	0.00%
444	84821040	All goods	0.00%
445	84821051	All goods	0.00%
446	84821052	All goods	0.00%
447	84821053	All goods	0.00%
448	84821090	All goods	0.00%
449	84825011	All goods	0.00%
450	84825012	All goods	0.00%
451	84825013	All goods	0.00%
452	84825021	All goods	0.00%
453	84825022	All goods	0.00%
454	84825023	All goods	0.00%
455	84828000	All goods	0.00%
456	84839000	All goods	5.83%
457	85061000	All goods	0.00%
458	85063000	All goods	0.00%
459	85064000	All goods	0.00%
460	85065000	All goods	0.00%
461	85066000	All goods	3.33%
462	85068010	All goods	3.33%
463	85068090	All goods	3.33%

464	85069000	All goods	3.33%
465	85161000	All goods	6.67%
466	85169000	All goods	3.33%
467	85182100	All goods	3.33%
468	85182200	All goods	3.33%
469	85183000	All goods	3.33%
470	85184000	All goods	3.33%
471	85185000	All goods	6.67%
472	85189000	All goods	3.33%
473	85198910	All goods	3.33%
474	85198920	All goods	3.33%
475	85198930	All goods	3.33%
476	85198940	All goods	3.33%
477	85198990	All goods	3.33%
478	85199200	All goods	0.00%
479	85219010	All goods	3.33%
480	85219020	All goods	3.33%
481	85219090	All goods	3.33%
482	85271300	All goods	0.00%
483	85279100	All goods	0.00%
484	85311010	All goods	6.67%
485	85311020	All goods	6.67%
486	85311090	All goods	6.67%
487	85441110	All goods	5.83%
488	85441190	All goods	5.83%
489	85441910	All goods	5.83%
490	85441920	All goods	5.83%

491	85441930	All goods	5.83%
492	85441990	All goods	5.83%
493	85489000	All goods	0.00%
494	87081010	All goods	0.00%
495	87081090	All goods	0.00%
496	87084000	All goods	0.00%
497	87086000	All goods	0.00%
498	87087000	All goods	6.67%
499	87089100	Radiators	3.33%
500	87089900	All goods	6.67%
501	90084000	All goods	0.00%
502	90151000	All goods	0.00%
503	90154000	All goods	0.00%
504	90189094	All goods	0.00%
505	90282000	All goods	0.00%
506	94032010	All goods	0.00%
507	94032090	All goods	0.00%
508	94033010	All goods	6.67%
509	94033090	All goods	6.67%
510	94036000	All goods	3.33%
511	94038100	All goods	0.00%
512	94038900	All goods	0.00%
513	94039000	All goods	0.00%
514	94054010	All goods	0.00%
515	94054090	All goods	0.00%
516	95041000	All goods	0.00%
517	95042000	All goods	0.00%

518	95069110	All goods	0.00%
519	95069190	All goods	0.00%
520	96061010	All goods	0.00%
521	96061020	All goods	0.00%
522	96062910	All goods	0.00%
523	96062990	All goods	0.00%
524	96071110	All goods	0.00%
525	96071190	All goods	0.00%
526	96071910	All goods	0.00%
527	96071990	All goods	0.00%
528	96072000	All goods	0.00%
529	96121010	All goods	3.33%
530	96121020	All goods	3.33%
531	96121030	All goods	3.33%
532	96121090	All goods	3.33%
533	96190010	All goods	6.67%

[F. No. 354/9/2004-TRU (Pt. II)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Footnote : The principal notification No. 10/2008-Customs, dated the 15th January, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 33(E), dated the 15th January, 2008 and last amended by notification No. 36/2012-Customs, dated the 14th May, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 365(E), dated the 14th May, 2012.